

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन का प्रस्तावित 2020 बजट, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाएगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 फरवरी, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का प्रस्तावित 2020 बजट (Proposed 2020 Budget) अब [ऑनलाइन \(online\)](#) उपलब्ध है। प्रस्तावित 2020 बजट, ब्रैम्पटन को अच्छी तरह से संचालित शहर (Well-Run City), हरा-भरा शहर (Green City), स्वस्थ एवं सुरक्षित शहर (Healthy and Safe City), अवसरों का शहर (City of Opportunities) और मोजैक (Mosaic) के तौर पर आगे बढ़ाते हुए, टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज (Term of Council priorities) का समर्थन करता है। बजट संबंधी चर्चाएं 18 फरवरी को दोपहर बाद 1 बजे शुरू होंगी। अंतिम बजट मंजूरी 26 फरवरी को शाम 7 बजे को होगी।

बजट कमेटी (Budget Committee) की मीटिंग्स के लिए [मुख्य तारीखों \(key dates\)](#) की पूरी सूची, [बजट की विशिष्टताएं \(Budget highlights\)](#), और [पूरा बजट प्रस्ताव \(the full Budget proposal\)](#) सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सिटी, प्रस्तावित 2020 बजट के बारे में जनता की समीक्षा और फीडबैक पर विचार करेगी।

बजट कमेटी को सिटी का मुख्य प्रस्ताव है कि वह 2019 के मुकाबले 2020 के बजट में 1.2% की कुल वृद्धि करे। यदि इसे मंजूर किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ब्रैम्पटन के प्रायर्टी टैक्स में 0.5% की वृद्धि होगी, जोकि सिटी के 2020 के बजट में फंड के लिए, प्रति परिवार औसतन \$27 होगा।

करदाता, अपने प्रायर्टी टैक्स बिल में, कुल 1.8% की टैक्स वृद्धि देखेंगे। यह प्रति परिवार औसत \$91 होगा। यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के 0.5% सहित, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) और पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Peel District School Board) की मिश्रित कुल वृद्धि है।

बजट चर्चाओं के दौरान, कमेटी अतिरिक्त क्षमताओं या निवेश के लिए संभावनाओं की समीक्षा कर सकती है।

### 2020 बजट प्रस्ताव की मुख्य विशिष्टताएं

- 120 नई बसें: वृद्धि के लिए 88 और पुराने फ्लीट के लिए 32 रिप्लेसमेंट बसें खरीदने के लिए तीन वर्षों में \$136M
- सिटी की सड़कों को बेहतर बनाने और अधिक सुरक्षित तरीकों से लोगों के आवागमन के लिए सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन मार्गों के लिए \$41M, जो हरा-भरा शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है
- सिटी के स्थानीय पार्कों, ट्रेल्स और खेल के मैदानों को सुधारने के लिए तीन वर्षों में \$9.8M
- अधिक सुरक्षित शहर को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सुरक्षा ज़ोनों में फोटो रडार के लिए तीन वर्षों में \$650,000
- अधिक कुशल ऊर्जा खपत के लिए स्ट्रीटलाइट्स की एल.ई.डी (LED) रेट्रोफिट के लिए तीन वर्षों में \$9M
- क्वीन स्ट्रीट रैपिड ट्रांजिट प्रीलीमाइनरी डिज़ाइन (Queen Street Rapid Transit Preliminary Design) के लिए तीन वर्षों में \$8M
- बेहतर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए मार्ग बनाने हेतु हुरोन्टैरियो मेन-स्ट्रीट एल.आर.टी. (Hurontario Main-Street LRT) के लिए तीन वर्षों में \$2.9M
- सेंचुरी गार्डन्स (Century Gardens) और साउथ फ्लेचर्स रेक्रिएशन सेंटर्स (South Fletcher's Recreation Centres) में दो नए यूथ सेंटर्स (Youth Centres) के लिए \$2M
- डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में रायसन इनोवेशन ज़ोन (Ryerson Innovation Zone) के लिए पांच वर्षों में \$5M

- आग लगने की घटनाओं के लिए अधिक तेज़ और भरोसेमंद प्रतिक्रिया के लिए आग बुझाने के उपकरणों को और ब्रैम्पटन फायर (Brampton Fire) के ट्रकों को अपग्रेड करने के लिए तीन वर्षों में \$9.8M

### अपनी राय दें

सिटी निवासियों, कारोबारियों और स्टेकहोल्डर्स को प्रोत्साहित करती है कि वे प्रस्तावित बजट की समीक्षा करें और निम्नलिखित में से किसी भी एक तरीके से अपना फीडबैक दें:

- ईमेल भेजें: [budget@brampton.ca](mailto:budget@brampton.ca) पर सवाल पूछें अथवा टिप्पणी दें।
- फोन करें: अपना सुझाव देने के लिए 311 पर फोन करें।
- टेलीफोन टाउन हॉल से जुड़ें: 18 फरवरी को शाम 7 से 8 बजे तक टेलीफोन टाउन हॉल (Telephone Town Hall) में हिस्सा लें, जहां चुनिंदा फोन नंबरों पर कॉल्स की जाएंगी। कॉल सूची में अपना फोन नंबर शामिल करने के लिए, 17 फरवरी तक [सिटी की वेबसाइट पर साइन अप करें \(sign up on the City website\)](#)।
- खुद आकर प्रतिनिधित्व करें: बजट कमेटी अथवा बजट मंजूरी काउंसिल मीटिंग में शामिल होने या अपनी राय देने के लिए [प्रतिनिधि मंडल अनुरोध \(delegation request\)](#) प्रस्तुत करें। प्रतिनिधि मंडल फार्म, सिटी के क्लर्क के ऑफिस में City Hall, 2 Wellington Street West पर खुद आकर भी भरे जा सकते हैं।
- मीटिंग में शामिल हों: सिटी हॉल (City Hall) में बजट कमेटी की मीटिंगों में शामिल हों। बजट कमेटी की मीटिंग के अंत में सार्वजनिक सवाल अवधि के हिस्से के तौर पर उस दिन के एजेंडे से संबंधित सवाल पूछें।

### हवाले

“ब्रैम्पटन का प्रस्तावित 2020 बजट, टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटीज द्वारा नियंत्रित है। यह अच्छी किस्म के प्रोग्रामों और सेवाएं प्रदान करने, वृद्धि के अवसरों का फायदा लेने और राष्ट्रीय व ग्लोबल रुझानों के लिए फुर्तीला व प्रतिक्रिया करने वाला बनने पर केंद्रित है। संचालन संबंधी क्षमताओं और राजस्व में वृद्धि ने, बजट कमेटी को भेजे जाने वाले इस ड्राफ्ट दृष्टिकोण में प्रापर्टी टैक्स वृद्धियों को रोकने में काफी मदद की है। सिटी, स्पष्ट और पारदर्शी बजट चर्चाएं करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिटी द्वारा तैयार की जाने वाली इस प्रक्रिया में सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों के सुझावों का स्वागत करती है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर

“बजट प्रस्ताव, बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को संतुलित करने और अधिक सक्षम व लागत-प्रभावी तरीके से, हमारे निवासियों और संभावी कारोबारियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांज़िट निवेश, संपत्ति सुधार और रिप्लेसमेंट की हमारी बढ़ती आवश्यकताओं पर ध्यान देने और भविष्य में हमारे ट्रांज़िट नेटवर्क के जारी विस्तार में सहायक होगा।”

- डेविड सुटन (David Sutton), ट्रेज़रर

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर

हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें।  
[www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)